



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2007/माघ 25, 1928

No. 161]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2007/MAGHA 25, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2007

का.आ. 197(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1360(अ), तारीख 25 अगस्त, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 121/000 कि.मी. से 214/300 कि.मी. (टिन्डीवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 26 अक्टूबर, 2006 को "दि हिन्दू" और "डेली थाँथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 121/000 कि.मी. से 214/300 कि.मी. तक (टिन्डीवनम - विल्लुपुरम तिरुचिरापल्ली सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	मुख्य / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विल्लुपुरम	टिन्डीवनम	(1) टिन्डीवनम	टिन्डीवनम टाउन वार्ड-बी ब्लॉक-4				
				टी एस सं.211/2	निजी	मनई	120	मलर पत्नी इलंगोवन
				टी एस सं.211/3	निजी	मनई	120	मुनियम्माल पत्नी बीरन
				टी एस सं.211/4	निजी	मनई	120	सरसु पत्नी पन्नीर सेल्वम
				टी एस सं.211/5	निजी	मनई	120	सीता पत्नी जानभीरामन
				टी एस सं.213/2	निजी	मनई	114	मुरुगम्माल पत्नी कामराज
				टी एस सं.213/3	निजी	मनई	120	गीता पत्नी कार्तिक
				टी एस सं.213/4	निजी	मनई	120	देवकी पत्नी अन्बलगन
				टी एस सं.213/5	निजी	मनई	120	सुन्दरी पत्नी रवी
				टी एस सं.213/6	निजी	मनई	120	अलमेलु मंगै पत्नी रमेश कुमार
				टी एस सं.213/7	निजी	मनई	120	बाबी पत्नी आरै
				टी एस सं.242/2	निजी	मनई	60	अंजलै पत्नी मणी
			(2) कावेरीपक्कम	टिन्डीवनम टाउन वार्ड - ई ब्लॉक - 10				
				टी एस सं.1/33	निजी	मनई	22	कुप्पम्माल पत्नी मुनुसामी
				टी एस सं.1/34	निजी	मनई	13	मुत्तुलक्ष्मी पत्नी मुनियप्पन
				टी एस सं.1/35	निजी	मनई	6	एल्लम्माल पत्नी राजमाणिकम
				टी एस सं.1/39	निजी	मनई	48	अंजलाक्षी पत्नी आनन्दन
				टी एस सं.1/40	निजी	मनई	50	देवकी पत्नी कालीनातन
				टी एस सं.1/41	निजी	मनई	35	पूरणी पत्नी कुप्पूरसामी
				टी एस सं.1/43	निजी	मनई	60	वसन्ता पत्नी बालसुन्दरम
				टी एस सं.1/44	निजी	मनई	60	बाकियम पत्नी मारी
				टी एस सं.1/47	निजी	मनई	60	अंजलाक्षी पत्नी राजी
				टी एस सं.1/48	निजी	मनई	55	मलरकोडी पत्नी गोपाल
			(3) वेलगमपाडी	215/11	निजी	शुष्क	242	वी. श्रीनिवास रेडियार पुत्र वेकट सुब्ब रेडियार
				215/12	निजी	मनई	338	पुष्पवती पत्नी नटराजन
	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम	(1) अयूरअगरम	98/3	निजी	नाथम	358	पच्छैयम्माल पत्नी मुनियन-1 जयलक्ष्मी पत्नी जेगन्नाथन-2 वेकटेशन पुत्र राजमाणिकम-3 कुप्पुसामी पुत्र सुबबन-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								मुनियन पुत्र सुब्बन-8 मुत्तुकृष्णन पुत्र सुब्बन-6 कलियपेरुम्माल पुत्र सुब्बन-7 कुप्पुसामी पुत्र सुब्बन-8
				98/4	निजी	नाथम	469	पच्छैयम्माल पत्नी मुनियन-1 जयलक्ष्मी पत्नी जेगन्नाथन-2 वेंकटेशन पुत्र राजमामिक्कम-3 कुप्पुसामी पुत्र सुब्बन-4 मुनियन पुत्र सुब्बन-5 मुत्तुकृष्णन पुत्र सुब्बन-6 कलियपेरुम्माल पुत्र सुब्बन-7 कुप्पुसामी पुत्र सुब्बन-8
				98/5	निजी	नाथम	1473	वेंकटेशन पुत्र राजमामिक्कम-1 मुत्तुकृष्णन पुत्र सुब्बन-2
				210/8ए1	निजी	मनई	30	आरवल्ली पत्नी वीरब्रह्म
				210/8बी1	निजी	मनई	33	पच्छैयम्माल पत्नी नारायणन
				210/8सी1	निजी	मनई	88	मुत्तुकृष्णन पुत्र उल्लननाथन
				210/8डी1	निजी	मनई	43	तंवरसु पुत्र केशवन-1 देवराजु पुत्र केशवन-2 एतिराज पुत्र सुब्बुरायन-3
				210/8ई1	निजी	मनई	28	तंवरसु पुत्र केशवन-1 देवराजु पुत्र केशवन-2 एतिराज पुत्र सुब्बुरायन-3
				210/8एफ1	निजी	मनई	80	कृष्णमूर्ति पुत्र गोपाल गवुन्डर
				210/7एफ	निजी	मनई	11	केशवन पुत्र गोविन्द गवुन्डर-1 रामसामी पुत्र सुब्बुराय गवुन्डर-2
				210/15सी	निजी	मनई	58	अर्जुणन पुत्र गोपाल
				210/15डी	निजी	मनई	12	ग्राम पंचायत, ऐयूर अगरम
				773/25	निजी	मनई	18	आनन्तावल पुत्र सामिक्कन्नु
				773/26	निजी	मनई	62	आरवल्ली पत्नी वीरब्रह्म

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				773/27	निजी	मनई	32.	गोविन्दभाल पुत्री नारायणन
				773/30	निजी	मनई	13	आनन्तवेल पुत्र सामिक्कन्नु
				155/6बी	निजी	शुष्क	28	राजकान्तन पत्नी श्रीनिवासन-1 चिन्नपोन्नु पत्नी लक्ष्मण गवुन्डर-2 वेल्लुमुगन पुत्र रंगनाथन-3 ससिकुमार पुत्र रंगनाथन-4
				209/35	निजी	शुष्क	6	ग्राम पंचायत, ऐयूर अग्रम
				209/40बी	निजी	शुष्क	7	सुब्रमणी पुत्र श्रीनिवासन-1 कुप्पुसामी पुत्र रंगनाथन-2
				209/66	निजी	शुष्क	11	ग्राम पंचायत, ऐयूर अग्रम
				209/67	निजी	शुष्क	12	ग्राम पंचायत, ऐयूर अग्रम
				212/9डी	निजी	शुष्क	8	ग्राम पंचायत, ऐयूर अग्रम
				221/1ई1	निजी	शुष्क	3	जयलक्ष्मी पत्नी वीरबद्रन-1 गणपती पुत्र श्रीनिवासन-2
								नारायणसामी पुत्र विजयरंगन-3
				237/7सी2	निजी	शुष्क	10	अबिका पत्नी कदिर्वेल
				247/2ए1ए	निजी	शुष्क	21	रंगनाथन पुत्र आरुमुग गवुन्डर
				247/4ए1	निजी	शुष्क	6	नारायणसामी पुत्र पेरुमाल-1 रंगनाथन पुत्र चिन्नकन्नु-2 मुगुगन पुत्र रामगवुन्डर-3 गुणसेकर-4 ऐयनार पुत्र वेंकटाचल गवुन्डर-5 कुप्पु पत्नी राजमाणिकम-6
				777/12बी	निजी	शुष्क	12	राजेश्वरन पुत्र अम्मावासै-1 दक्षिणामूर्ति पुत्र शन्मुग गवुन्डर-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				777/18बी	निजी	शुष्क	12	अजलीदेवी पत्नी परमेश्वरन
				777/23बी	निजी	शुष्क	6	सोलैयम्माल पत्नी महादेवन
				777/46	निजी	शुष्क	14	शान्ती पत्नी देवनातन-1 सुमती पत्नी राजसेकरन-2 वासुकी पत्नी राजेन्द्रन-3 नटराजन पुत्र कण्णैयन-4 वेल्लुरुगन पुत्र रंगनाथन-5 ससिकुमार पुत्र रंगनाथन-6
				777/47	निजी	शुष्क	13	शान्ती पत्नी देवनातन-1 सुमती पत्नी राजसेकरन-2 वासुकी पत्नी राजेन्द्रन-3 वेल्लुरुगन पुत्र रंगनाथन-4 ससिकुमार पुत्र रंगनाथन-5 मंगैयर्करसी पत्नी मुरुगन-6
								राजकान्तन पत्नी श्रीनिवासन-7
				777/48बी	निजी	शुष्क	7	मंगैयर्करसी पत्नी मुरुगन
				778/11बी	निजी	शुष्क	30	नटराजन पुत्र कण्णैयन
				778/14बी	निजी	शुष्क	21	पेरियण्ण गवुन्दर पुत्र लक्ष्मण गवुन्दर-1 अण्णामलै पुत्र कन्दसामी गवुन्दर-2
				781/8बी	निजी	शुष्क	5	राजेन्द्रन पुत्र दनपाल
				781/18बी	निजी	शुष्क	10	दनम पत्नी देयवनायगन-1 मुत्तम्माल पत्नी तिल्लै गोविन्दन-2 रामराजन पुत्र माधव पिल्लै-3
				783/10बी	निजी	शुष्क	20	अर्जुणन पुत्र मासिलामणी-1 सेल्वरंगम पुत्र जानकीरामन-2
				783/19बी	निजी	शुष्क	6	ग्राम पंचायत, ऐयूर अगारम
		(2) पेडागम		273/1ए	निजी	मनई	26	सेतिल पुत्र चिन्नदुरै नाडार
				273/1बी	निजी	मनई	76	जंबुलिंगम पुत्र ऐयावु नाडार

	2	3	4	5	6	7	8	9
				273/1सी	निजी	मनई	70	मुरुगेश नाडार पुत्र ऐयावु नाडार
				273/1डी	निजी	मनई	120	वल्ली पत्नी सुब्रमणी, चेन्नै
				273/1ई	निजी	मनई	174	सामन्तमूर्ति पुत्र मारिमुत्तु-1 शंकर पुत्र सेट्टु-2 आनन्द पुत्र कृष्णमूर्ति-3 आतिराज पुत्र अलगण नैनार-4 राजेश्वरी पत्नी अशोक कुमार-5
				273/1एफ	निजी	मनई	12	कण्णम्माल पत्नी नटराजन
				273/2ए	निजी	मनई	50	कण्णम्माल पत्नी नटराजन
				273/2बी	निजी	मनई	50	सुबाष पुत्र चिन्नदुरै नाडार
				275/1बी	निजी	मनई	50	रामचंदिरन पुत्र विश्वनाथन
				275/1सी	निजी	मनई	86	एकाम्बरम पुत्र वेदगिरी-1 मंगैयर्करसी पत्नी वसिष्ठर नाडार-2
				275/1डी	निजी	मनई	91	एकाम्बरम पुत्र वेदगिरी-1 मुरुगदास पुत्र वेदगिरी-2 आरुमुगम पुत्र वेदगिरी-3
				275/1ई	निजी	मनई	153	पन्नीरसेल्वम पुत्र शन्मुगम पिल्लै-1 मुर्ति पुत्र शन्मुगमपिल्लै-2 शंकर पुत्र शन्मुगमपिल्लै-3
				275/1एफ	निजी	मनई	54	नटनसबापति पुत्र सुबुराय पिल्लै
				275/1जी	निजी	मनई	59	महादेवन पुत्र सुबुरायपिल्लै
				275/1एच	निजी	मनई	175	लक्ष्मी पत्नी दांडवमूर्ति-1 महादेवन पुत्र सुबुरायपिल्लै-2
				276/1बी1	निजी	मनई	120	रामसामी पुत्र आदिमूलम
				276/1बी2	निजी	मनई	50	कन्दसामी पुत्र आदिमूलम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				276/1बी3	निजी	मनई	130	नामदेव पुत्र वैतियनाथन
				276/3ए	निजी	मनई	734	कलिवरतन पुत्र मुरुगेसपिल्लै
				276/3बी	निजी	मनई	250	कलिवरतन पुत्र मुरुगेसपिल्लै
				276/3सी	निजी	मनई	414	कलिवरतन पुत्र मुरुगेसपिल्लै
				276/3डी	निजी	मनई	128	कलिवरतन पुत्र मुरुगेसपिल्लै
				279/4ए	निजी	मनई	775	सरोजा पत्नी चिन्नदुरै नाडार
				279/4बी	निजी	मनई	235	सेतिल पुत्र चिन्नदुरै नाडार
				279/4सी	निजी	मनई	166	सेतिल पुत्र चिन्नदुरै नाडार
				309/6	निजी	मनई	62	कादिमती पत्नी गोविन्दसामी
				309/7	निजी	मनई	31	कादिमती पत्नी गोविन्दसामी
				309/8	निजी	मनई	117	अम्बलवानन पुत्र पेरुमाल चेटियार
				309/5बी4	निजी	मनई	51	अरुल पुत्र वीरमणी-1 मणिमोली पुत्र वीरमणी-2
				381/5ए1	निजी	मनई	433	मुरुगन पुत्र कलियपेरुमाल-1 अरुल पुत्र कलियपेरुमाल-2
				381/5ए2	निजी	मनई	469	मायवन पुत्र सेल्लमुत्तु
				381/5ए3	निजी	मनई	313	कुजितपातम पुत्र वेलुपिल्लै-1 आदिमूलम पुत्र कुजितपातम-2
				381/5ए4	निजी	मनई	85	सेट्टु पुत्र मुनुसामी
				381/7ए1ए	निजी	मनई	223	मणी नामक चक्रवर्ती पुत्र रतिनम
				381/7ए1बी	निजी	मनई	177	सिवरामलिंगम पुत्र कोतडपानी चेटियार
				381/7बी1	निजी	मनई	900	सुन्दरम चेटियार पुत्र कुप्पुसामी चेटियार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				381/8ए1	निजी	मनई	17	सुन्दरम चेटियार पुत्र कुप्पुसामी चेटियार-1 सक्तिवेल पुत्र सिवप्रकासम-2
				381/8ए2	निजी	मनई	292	सक्तिवेल पुत्र सिवप्रकासम
				381/8ए3	निजी	मनई	123	सक्तिवेल पुत्र सिवप्रकासम
				381/8ए4	निजी	मनई	156	विमला पत्नी विवेकानन्दन
				381/8ए5	निजी	मनई	68	राजशेकर पुत्र परसुरामन
				381/8ए6	निजी	मनई	71	राजशेकर पुत्र परसुरामन
				381/8ए7	निजी	मनई	104	कलिवरतन पुत्र कातपडैयाची
				381/8ए8	निजी	मनई	15	कुटियम्माल पत्नी आरुमुगम-1 कलिवरतन पुत्र कातपडैयाची-2
				381/8ए9	निजी	मनई	101	कुटियम्माल पत्नी आरुमुगम-1 सिंगारवेल पुत्र आरुमुगम-2
				381/8ए10	निजी	मनई	103	सेल्वराज पुत्र रामकृष्णन-1 सुरेश पुत्र कलियमूर्ति-2 सन्तोष पुत्र कलियमूर्ति-3 रानी पत्नी दंडपानी-4 सेल्वनायगी पत्नी कुप्पुसामी-5 मणिमेगलै पत्नी रामकृष्णन-6
		(3)मुण्डियमबाक्कम		30/1जे1	निजी	मनई	51	ग्राम पंचायत, मुण्डियमबाक्कम
				163बी/16बी1बी	निजी	मनई	60	मणी पुत्र गोपालपिल्लै-1 जयरामन पुत्र गोपाल पिल्लै-2
				172/43ए	निजी	मनई	54	ग्राम पंचायत, मुण्डियमबाक्कम
				191/1ए2ए	निजी	मनई	40	ग्राम पंचायत, मुण्डियमबाक्कम
				192/2ए11ए	निजी	मनई	35	ग्राम पंचायत, मुण्डियमबाक्कम
				196/3बी2	निजी	मनई	79	ग्राम पंचायत, मुण्डियमबाक्कम
				196/15बी	निजी	मनई	45	ग्राम पंचायत, मुण्डियमबाक्कम

[फा. सं. 11015/8/2001/डीजीएम/भू.अ./त्रिची]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION****New Delhi, the 14th February, 2007**

S.O. 197(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number **S.O.1360(E)**, dated the **25th August, 2006**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.45 on the stretch of land from **Km.121/000 to Km.214/300 (Tindivanam – Villupuram – Tiruchirappalli Section)** in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "**The Hindu**" and "**Daily Thanthi**", both dated the **26th October, 2006**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.121/000 to Km.214/300 (Tindivanam -Villupuram - Tiruchirappalli Section) on the National Highway No.45 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Villupuram	1. Tindivanam	(1) Tindivanam	Tindivanam Town Ward-B, Block-4				
				TS No.211/2	Private	Manai	120	Malar W/o.Elangovan
				TS No.211/3	Private	Manai	120	Muniammal W/o. Veeran
				TS No.211/4	Private	Manai	120	Sarasu W/o.Panner Selvam
				TS No.211/5	Private	Manai	120	Seetha W/o.Janagiraman
				TS No.213/2	Private	Manai	114	Murugammal W/o. Kamaraj
				TS No.213/3	Private	Manai	120	Gaetha W/o.Karthik
				TS No.213/4	Private	Manai	120	Devaki W/o Anbalagan
				TS No.213/5	Private	Manai	120	Sundari W/o. Ravi
				TS No.213/6	Private	Manai	120	Alamelu Mangai W/o.Ramesh kumar
				TS No.213/7	Private	Manai	120	Bobby W/o.Asai
				TS No.242/2	Private	Manai	60	Anjalai W/o.Mani
			(2) Kaveripakkam	Tindivanam Town Ward-E, Block-10				
				TS No.1/33	Private	Manai	22	Kuppammal W/o.Munusamy
				TS No.1/34	Private	Manai	13	Muthulakshmi W/o.Muniappan
				TS No.1/35	Private	Manai	6	Elammal W/o.Rajamanikkam
				TS No.1/39	Private	Manai	48	Anjalatchi W/o. Anandhan
				TS No.1/40	Private	Manai	50	Devaki W/o.Kalinathan
				TS No.1/41	Private	Manai	35	Poorani W/o.Kuppursamy
				TS No.1/43	Private	Manai	60	Vasanth W/o.Balasundharam
				TS No.1/44	Private	Manai	60	Bakkiyam W/o.Mani
				TS No.1/47	Private	Manai	60	Anjalakshi W/o.Raji
				TS No.1/48	Private	Manai	55	Malarkodi W/o.Gopal
			(3) Velangampadi	215/11	Private	Dry	242	V.Srinivasa Reddiar S/o.VenkataSubba Reddiar
				215/12	Private	Manai	338	Pushpavathy W/o.Natarajan
		2. Villupuram	(1) Ayyur Agaram	98/3	Private	Natham	358	Pachaiyammal W/o.Muniyan-1 Jayalakshmi W/o.Jagannathan-2 Venkatesan S/o.Rajamanickam-3 Kuppusamy S/o Subban-4 Muniyan S/o.Subban-5 Muthukrishnan S/o Subban-6 Kaliyaperumal S/o Subban-7 Kuppusamy S/o Subban-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				98/4	Private	Natham	469	Pachaiyammal W/o. Muniyar-1 Jayalakshmi W/o. Jagannathan-2 Venkatesan S/o. Rajamanickam-3 Kuppusamy S/o. Subban-4 Muniyan S/o. Subban-5 Mothukrishnan S/o. Subban-6 Kaliyaperumal S/o. Subban-7 Kuppusamy S/o. Subban-8
				98/5	Private	Natham	1473	Venkatesan S/o. Rajamanickam-1 Munugan S/o. Kanna Gounder-2
				210/8A1	Private	Manai	30	Aravalli W/o. Veerabadrhan
				210/8B1	Private	Manai	33	Govindammal W/o. Narayanan
				210/8C1	Private	Manai	88	Gunasekaran S/o. Jagannathan
				210/8D1	Private	Manai	43	Thangarasu S/o. Kesavan-1 Devaraju S/o. Kesavan-2 Ethiraj S/o. Subburayan-3
				210/8E1	Private	Manai	28	Thangarasu S/o. Kesavan-1 Devaraju S/o. Kesavan-2 Ethiraj S/o. Subburayan-3
				210/8F1	Private	Manai	80	Krishnamoorthy S/o. Gopal Gounder
				210/7F	Private	Manai	11	Kesavan S/o. Govinda Gounder-1 Ramasamy S/o. Suburaya Gounder-2
				210/15C	Private	Manai	58	Arjunan S/o. Gopal
				210/15D	Private	Manai	12	Village Panchayat, Ayyur Agaram
				773/25	Private	Manai	18	Ananthavel S/o. Samikkannu
				773/26	Private	Manai	62	Aravalli W/o. Veerabadrhan
				773/27	Private	Manai	32	Govindammal D/o. Narayanan
				773/30	Private	Manai	13	Ananthavel S/o. Samikkannu
				155/6B	Private	Dry	28	Rajakanthan W/o. Srinivasan-1 Chinnaponnu W/o. Lakshmana Gounder-2 Velmurugan S/o. Ranganathan-3 Sasikumar S/o. Ranganathan-4
				209/35	Private	Dry	6	Village Panchayat, Ayyur Agaram
				209/40B	Private	Dry	7	Subramani S/o. Srinivasan-1 Kuppusamy S/o. Ranganathan-2
				209/66	Private	Dry	11	Village Panchayat, Ayyur Agaram

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				209/67	Private	Dry	12	Village Panchayat, Ayyur Agaram
				212/9D	Private	Dry	8	Village Panchayat, Ayyur Agaram
				221/1E1	Private	Dry	3	Jayalakshmi W/o. Veerbadran-1 Ganapathi S/o. Srinivasan-2 Narayanasamy S/o. Vijayarangan-3
				237/7C2	Private	Dry	10	Ambiga W/o. Kadirvel
				247/2A1A	Private	Dry	21	Ranganathan S/o. Arumuga Gounder
				247/4A1	Private	Dry	6	Narayanasamy S/o. Perumal-1 Renganathan S/o. Chinnakannu-2 Murugan S/o. Ramagounder-3 Gunasekar-4
								Ayyanar S/o. Venkatachala Gounder-5 Kuppu W/o. Rajamanickam-6
				777/12B	Private	Dry	12	Rajeswaran S/o. Amnavasai-1 Dakshinamoorthy S/o. Shanmuga Gounder-2
				777/18B	Private	Dry	12	Anjalidevi W/o. Paramesivaran
				777/23B	Private	Dry	6	Solaiammal W/o. Mahadevan
				777/46	Private	Dry	14	Santhi W/o. Devanathan-1 Sumathi W/o. Rajasekaran-2 Vasuki W/o. Rajendiran-3 Natarajan S/o. Kannaiyan-4 Velmurugan S/o. Renganathan-5 Sasikumar S/o. Renganathan-6
				777/47	Private	Dry	13	Santhi W/o. Devanathan-1 Sumathi W/o. Rajasekaran-2 Vasuki W/o. Rajendiran-3 Velmurugan S/o. Renganathan-4 Sasikumar S/o. Renganathan-5 Mangaiyarkarasi W/o. Murugan-6 Rajakanthan W/o. Srinivasan-7
				777/48B	Private	Dry	7	Mangaiyarkarasi W/o. Murugan
				778/11B	Private	Dry	30	Natarajan S/o. Kannaiyan
				778/14B	Private	Dry	21	Periyanna Gounder S/o. Lakshman Gounder-1 Annamalai S/o. Kandasamy Gounder-2
				781/8B	Private	Dry	5	Rajendran S/o. Dhanapal

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				781/18B	Private	Dry	10	Dhanam W/o. Deivanayagan-1 Muthammal W/o. Thillai Govindan-2
								Ramarajan S/o. Madhava Pillai-3
				783/10B	Private	Dry	20	Arjunan S/o. Masilamani-1 Selvarangam S/o. Janakiraman-2
				783/19B	Private	Dry	6	Village Panchayat, Ayyur Agaram
		(2) Pidagam		273/1A	Private	Manai	26	Senthil S/o. Chinnadurai Nader
				273/1B	Private	Manai	76	Jambulingam S/o. Iyyavu Nader
				273/1C	Private	Manai	70	Murugesu Nader S/o. Iyyavu Nader
				273/1D	Private	Manai	120	Valli W/o. Subramani, Chennai
				273/1E	Private	Manai	174	Samanthamurthy S/o. Marimuthu-1 Sankar S/o. Settu-2 Anand S/o. Krishnamoorthy-3 Athiraj S/o. Alagaappa Nainar-4 Rajeshwari W/o. Ashok kumar-5
				273/1F	Private	Manai	12	Kannammal W/o. Natarajan
				273/2A	Private	Manai	50	Kannammal W/o. Natarajan
				273/2B	Private	Manai	50	Subash S/o. Chinnadurai Nader
				275/1B	Private	Manai	50	Ramachandiran S/o. Viswanathan
				275/1C	Private	Manai	86	Ekambaram S/o. Vethagiri-1 Mangaiyarkarasi W/o. Vasistar Nader-2
				275/1D	Private	Manai	91	Ekambaram S/o. Vedagiri-1 Murugadoss S/o. Vedagiri-2 Arumugam S/o. Vedagiri-3
				275/1E	Private	Manai	153	Pannarselvam S/o. Shanmugam Pillai-1 Murthy S/o. Shanmugampillai-2 Sankar S/o. Shanmugampillai-3
				275/1F	Private	Manai	54	Natanasabapathy S/o. Suburaya Pillai
				275/1G	Private	Manai	59	Mahadevan S/o. Suburayapillai
				275/1H	Private	Manai	175	Lakshmi W/o. Dhandavamoorthy-1 Mahadevan S/o. Suburayapillai-2
				276/1B1	Private	Manai	120	Ramasamy S/o. Adhimulam
				276/1B2	Private	Manai	50	Kandhasamy S/o. Adhimulam
				276/1B3	Private	Manai	130	Namadev S/o. Vaithyanathan
				276/3A	Private	Manai	734	Kalivarathan S/o. Murugesapillai
				276/3B	Private	Manai	250	Kalivarathan S/o. Murugesapillai

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				276/3C	Private	Manai	414	Kalivarathan S/o. Murugesapillai
				276/3D	Private	Manai	128	Kalivarathan S/o. Murugesapillai
				279/4A	Private	Manai	775	Saroja W/o. Chinnadurai Nadar
				279/4B	Private	Manai	235	Senthil S/o. Chinnadurai Nadar
				279/4C	Private	Manai	166	Senthil S/o. Chinnadurai Nadar
				309/6	Private	Manai	62	Kandhimathi W/o. Govindasamy
				309/7	Private	Manai	31	Kandhimathi W/o. Govindasamy
				309/8	Private	Manai	117	Ambalavanan S/o. Perumal Chettiyar
				309/5B4	Private	Manai	51	Arul S/o. Veeramani-1 Manimozhi S/o. Veeramani-2
				381/5A1	Private	Manai	433	Murugan S/o. Kaliyaperumal-1 Arul S/o. Kaliyaperumal-2
				381/5A2	Private	Manai	469	Mayavan S/o. Sellamuthu
				381/5A3	Private	Manai	313	Kunjithapatham S/o. Velupillai-1 Adimoolam S/o. Kunjithapatham-2
				381/5A4	Private	Manai	85	Settu S/o. Munusamy
				381/7A1A	Private	Manai	223	Mani @ Chakravarthi S/o. Rathinam
				381/7A1B	Private	Manai	177	Sivaramalingam S/o. Kothandapani Chettiar
				381/7B1	Private	Manai	900	Sundaram Chettiar S/o. Kuppusamy Chettiar
				381/8A1	Private	Manai	17	Sundaram Chettiar S/o. Kuppusamy Chettiar-1 Sakthivel S/o. Sivaprakasam-2
				381/8A2	Private	Manai	292	Sakthivel S/o. Sivaprakasam
				381/8A3	Private	Manai	123	Sakthivel S/o. Sivaprakasam
				381/8A4	Private	Manai	156	Vimala W/o. Vivekanandhan
				381/8A5	Private	Manai	68	Rajasekar S/o. Parusraman
				381/8A6	Private	Manai	71	Rajasekar S/o. Parusraman
				381/8A7	Private	Manai	104	Kalivarathan S/o. Kathapadiyatchi
				381/8A8	Private	Manai	15	Kutiyammal W/o. Arumugam-1 Kalivarahtan S/o. Kathapadayachi-2
				381/8A9	Private	Manai	101	Kutiyammal W/o. Arumugam-1 Singaravel S/o. Arumugam-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				381/8A10	Private	Manai	103	Selvaraj S/o.Ramakrishnan-1 Suresh S/o.Kaliyamurthy-2 Santhosh S/o. Kaliyamoorthy-3 Rani W/o.Dhandapani-4 Selvanayagi W/o. Kuppusamy-5 Manimegalai W/o.Ramakrishnan-6
			(3) Mundiymbakkam	30/1J1	Private	Manai	51	Village Panchayat Mundiymbakkam
				163B/16B1B	Private	Manai	60	Mani S/o. Gopalpillai-1 Jayaraman S/o. Gopal pillai-2
				172/43A	Private	Manai	54	Village Panchayat Mundiymbakkam
				191/1A2A	Private	Manai	40	Village Panchayat Mundiymbakkam
				192/2A11A	Private	Manai	35	Village Panchayat Mundiymbakkam
				196/3B2	Private	Manai	79	Village Panchayat Mundiymbakkam
				196/15B	Private	Manai	45	Village Panchayat Mundiymbakkam

[F. No. 11015/8/2001/DGM/LAQ/Trichy]

PRABHAKAR, Dy. Secy.